

**एनईआर के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For NER**

दिनांक/Date: 2/18/2025

| तिथि और समय / Date and Time |               | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block                | अवधि/ Period  | MW  | MW   | MW                               | MW  | MW  |
| 1                           | 00:00 - 00:15 | 1769  | 1832   | 1781                             | 13  | 51  |
| 2                           | 00:15 - 00:30 | 1727  | 1789   | 1770                             | 43  | 18  |
| 3                           | 00:30 - 00:45 | 1692  | 1752   | 1746                             | 54  | 6   |
| 4                           | 00:45 - 01:00 | 1664  | 1723   | 1718                             | 54  | 5   |
| 5                           | 01:00 - 01:15 | 1643  | 1701   | 1693                             | 50  | 8   |
| 6                           | 01:15 - 01:30 | 1622  | 1680   | 1665                             | 43  | 15  |
| 7                           | 01:30 - 01:45 | 1603  | 1661   | 1648                             | 45  | 13  |
| 8                           | 01:45 - 02:00 | 1585  | 1642   | 1637                             | 52  | 5   |
| 9                           | 02:00 - 02:15 | 1567  | 1623   | 1614                             | 47  | 9   |
| 10                          | 02:15 - 02:30 | 1552  | 1608   | 1600                             | 48  | 8   |
| 11                          | 02:30 - 02:45 | 1539  | 1594   | 1577                             | 38  | 17  |
| 12                          | 02:45 - 03:00 | 1527  | 1582   | 1565                             | 38  | 17  |
| 13                          | 03:00 - 03:15 | 1517  | 1571   | 1555                             | 38  | 16  |
| 14                          | 03:15 - 03:30 | 1508  | 1562   | 1548                             | 40  | 14  |
| 15                          | 03:30 - 03:45 | 1504  | 1557   | 1546                             | 43  | 11  |
| 16                          | 03:45 - 04:00 | 1501  | 1555   | 1542                             | 41  | 13  |
| 17                          | 04:00 - 04:15 | 1503  | 1557   | 1549                             | 46  | 8   |
| 18                          | 04:15 - 04:30 | 1514  | 1568   | 1555                             | 41  | 13  |
| 19                          | 04:30 - 04:45 | 1532  | 1587   | 1562                             | 30  | 25  |
| 20                          | 04:45 - 05:00 | 1561  | 1617   | 1581                             | 19  | 36  |
| 21                          | 05:00 - 05:15 | 1597  | 1654   | 1637                             | 40  | 17  |
| 22                          | 05:15 - 05:30 | 1640  | 1699   | 1709                             | 69  | 10  |
| 23                          | 05:30 - 05:45 | 1698  | 1758   | 1773                             | 75  | 15  |
| 24                          | 05:45 - 06:00 | 1770  | 1834   | 1866                             | 96  | 33  |
| 25                          | 06:00 - 06:15 | 1855  | 1921   | 2005                             | 151   | 84  |
| 26                          | 06:15 - 06:30 | 1945  | 2015   | 2154                             | 209   | 139   |
| 27                          | 06:30 - 06:45 | 2044  | 2117   | 2242                             | 199   | 126   |
| 28                          | 06:45 - 07:00 | 2145  | 2221   | 2385                             | 240   | 164   |
| 29                          | 07:00 - 07:15 | 2234  | 2413   | 2451                             | 216   | 37  |
| 30                          | 07:15 - 07:30 | 2298  | 2482   | 2503                             | 206   | 22  |
| 31                          | 07:30 - 07:45 | 2334  | 2521   | 2493                             | 158   | 29  |
| 32                          | 07:45 - 08:00 | 2347  | 2535   | 2476                             | 129   | 59  |
| 33                          | 08:00 - 08:15 | 2355  | 2465   | 2466                             | 111   | 0   |
| 34                          | 08:15 - 08:30 | 2365  | 2476   | 2446                             | 81  | 30  |
| 35                          | 08:30 - 08:45 | 2379  | 2491   | 2430                             | 50  | 62  |
| 36                          | 08:45 - 09:00 | 2382  | 2494   | 2374                             | 8   | 120   |
| 37                          | 09:00 - 09:15 | 2372  | 2483   | 2352                             | 20  | 131   |
| 38                          | 09:15 - 09:30 | 2351  | 2462   | 2334                             | 17  | 127   |
| 39                          | 09:30 - 09:45 | 2322  | 2431   | 2309                             | 13  | 122   |
| 40                          | 09:45 - 10:00 | 2289  | 2396   | 2278                             | 11  | 118   |
| 41                          | 10:00 - 10:15 | 2253  | 2245   | 2254                             | 1   | 9   |
| 42                          | 10:15 - 10:30 | 2225  | 2216   | 2224                             | 1   | 8   |
| 43                          | 10:30 - 10:45 | 2191  | 2183   | 2204                             | 12  | 21  |
| 44                          | 10:45 - 11:00 | 2163  | 2154   | 2189                             | 27  | 35  |
| 45                          | 11:00 - 11:15 | 2128  | 2120   | 2164                             | 36  | 44  |
| 46                          | 11:15 - 11:30 | 2105  | 2097   | 2150                             | 45  | 53  |
| 47                          | 11:30 - 11:45 | 2087  | 2079   | 2133                             | 46  | 55  |
| 48                          | 11:45 - 12:00 | 2074  | 2066   | 2132                             | 58  | 66  |
| 49                          | 12:00 - 12:15 | 2058  | 2050   | 2115                             | 57  | 65  |
| 50                          | 12:15 - 12:30 | 2039  | 2031   | 2133                             | 93  | 101   |
| 51                          | 12:30 - 12:45 | 2026  | 2019   | 2140                             | 114   | 122   |
| 52                          | 12:45 - 13:00 | 2014  | 2007   | 2122                             | 108   | 116   |
| 53                          | 13:00 - 13:15 | 1998  | 2072   | 2095                             | 98  | 24  |
| 54                          | 13:15 - 13:30 | 1974  | 2047   | 2073                             | 98  | 25  |
| 55                          | 13:30 - 13:45 | 1956  | 2029   | 2069                             | 113   | 40  |
| 56                          | 13:45 - 14:00 | 1947  | 2019   | 2109                             | 161   | 89  |
| 57                          | 14:00 - 14:15 | 1951  | 2089   | 2101                             | 150   | 11  |
| 58                          | 14:15 - 14:30 | 1958  | 2097   | 2117                             | 159   | 20  |
| 59                          | 14:30 - 14:45 | 1974  | 2114   | 2130                             | 156   | 16  |
| 60                          | 14:45 - 15:00 | 1993  | 2135   | 2116                             | 123   | 19  |
| 61                          | 15:00 - 15:15 | 2017  | 2161   | 2126                             | 108   | 35  |
| 62                          | 15:15 - 15:30 | 2042  | 2187   | 2151                             | 109   | 36  |
| 63                          | 15:30 - 15:45 | 2073  | 2221   | 2166                             | 93  | 55  |
| 64                          | 15:45 - 16:00 | 2113  | 2263   | 2189                             | 75  | 75  |
| 65                          | 16:00 - 16:15 | 2157  | 2310   | 2213                             | 56  | 97  |
| 66                          | 16:15 - 16:30 | 2212  | 2369   | 2250                             | 38  | 119   |
| 67                          | 16:30 - 16:45 | 2280  | 2442   | 2297                             | 17  | 145   |
| 68                          | 16:45 - 17:00 | 2373  | 2542   | 2370                             | 3   | 171   |
| 69                          | 17:00 - 17:15 | 2480  | 2617   | 2477                             | 3   | 140   |
| 70                          | 17:15 - 17:30 | 2593  | 2737   | 2598                             | 5   | 139   |
| 71                          | 17:30 - 17:45 | 2686  | 2835   | 2727                             | 42  | 107   |
| 72                          | 17:45 - 18:00 | 2742  | 2894   | 2800                             | 58  | 94  |
| 73                          | 18:00 - 18:15 | 2758  | 2864   | 2771                             | 14  | 93  |
| 74                          | 18:15 - 18:30 | 2749  | 2855   | 2768                             | 19  | 87  |
| 75                          | 18:30 - 18:45 | 2735  | 2840   | 2734                             | 1   | 106   |
| 76                          | 18:45 - 19:00 | 2720  | 2825   | 2710                             | 10  | 115   |
| 77                          | 19:00 - 19:15 | 2706  | 2779   | 2724                             | 19  | 55  |
| 78                          | 19:15 - 19:30 | 2694  | 2767   | 2697                             | 3   | 71  |
| 79                          | 19:30 - 19:45 | 2683  | 2756   | 2673                             | 10  | 83  |
| 80                          | 19:45 - 20:00 | 2664  | 2737   | 2655                             | 9   | 81  |
| 81                          | 20:00 - 20:15 | 2638  | 2684   | 2643                             | 5   | 41  |
| 82                          | 20:15 - 20:30 | 2613  | 2658   | 2603                             | 10  | 56  |
| 83                          | 20:30 - 20:45 | 2587  | 2632   | 2583                             | 3   | 48  |
| 84                          | 20:45 - 21:00 | 2551  | 2596   | 2567                             | 15  | 29  |
| 85                          | 21:00 - 21:15 | 2499  | 2543   | 2511                             | 12  | 32  |
| 86                          | 21:15 - 21:30 | 2438  | 2481   | 2449                             | 11  | 32  |
| 87                          | 21:30 - 21:45 | 2370  | 2411   | 2376                             | 6   | 36  |
| 88                          | 21:45 - 22:00 | 2299  | 2340   | 2312                             | 13  | 27  |
| 89                          | 22:00 - 22:15 | 2227  | 2266   | 2251                             | 24  | 15  |
| 90                          | 22:15 - 22:30 | 2153  | 2191   | 2171                             | 17  | 20  |
| 91                          | 22:30 - 22:45 | 2083  | 2119   | 2109                             | 27  | 10  |
| 92                          | 22:45 - 23:00 | 2021  | 2056   | 2054                             | 34  | 2   |
| 93                          | 23:00 - 23:15 | 1967  | 2001   | 1988                             | 21  | 13  |
| 94                          | 23:15 - 23:30 | 1920  | 1954   | 1934                             | 14  | 19  |
| 95                          | 23:30 - 23:45 | 1874  | 1907   | 1876                             | 2   | 31  |

|    |               |      |      |      |   |    |
|----|---------------|------|------|------|---|----|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 1830 | 1861 | 1834 | 5 | 27 |
|----|---------------|------|------|------|---|----|

**अरुणाचल प्रदेश के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Arunachal Pradesh**

दिनांक/Date: 2/18/2025

| तिथि और समय / Date and Time |               | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block                | अवधि/ Period  | MW  | MW   | MW                               | MW  | MW  |
| 1                           | 00:00 - 00:15 | 122   | 121  | 116                              | 6   | 5   |
| 2                           | 00:15 - 00:30 | 121   | 120  | 115                              | 5   | 4   |
| 3                           | 00:30 - 00:45 | 119   | 118  | 112                              | 7   | 6   |
| 4                           | 00:45 - 01:00 | 119   | 118  | 112                              | 6   | 5   |
| 5                           | 01:00 - 01:15 | 118   | 117  | 108                              | 10  | 9   |
| 6                           | 01:15 - 01:30 | 118   | 117  | 107                              | 10  | 10  |
| 7                           | 01:30 - 01:45 | 117   | 116  | 111                              | 6   | 5   |
| 8                           | 01:45 - 02:00 | 117   | 116  | 111                              | 5   | 5   |
| 9                           | 02:00 - 02:15 | 115   | 112  | 107                              | 8   | 5   |
| 10                          | 02:15 - 02:30 | 115   | 112  | 105                              | 10  | 7   |
| 11                          | 02:30 - 02:45 | 114   | 111  | 102                              | 12  | 9   |
| 12                          | 02:45 - 03:00 | 113   | 110  | 108                              | 6   | 3   |
| 13                          | 03:00 - 03:15 | 112   | 108  | 108                              | 4   | 0   |
| 14                          | 03:15 - 03:30 | 112   | 108  | 110                              | 2   | 2   |
| 15                          | 03:30 - 03:45 | 113   | 109  | 112                              | 2   | 3   |
| 16                          | 03:45 - 04:00 | 113   | 109  | 109                              | 5   | 0   |
| 17                          | 04:00 - 04:15 | 112   | 108  | 107                              | 6   | 1   |
| 18                          | 04:15 - 04:30 | 112   | 108  | 107                              | 5   | 1   |
| 19                          | 04:30 - 04:45 | 113   | 108  | 111                              | 2   | 3   |
| 20                          | 04:45 - 05:00 | 115   | 110  | 113                              | 2   | 2   |
| 21                          | 05:00 - 05:15 | 117   | 113  | 114                              | 3   | 2   |
| 22                          | 05:15 - 05:30 | 119   | 114  | 119                              | 0   | 5   |
| 23                          | 05:30 - 05:45 | 122   | 117  | 113                              | 9   | 4   |
| 24                          | 05:45 - 06:00 | 126   | 120  | 110                              | 16  | 11  |
| 25                          | 06:00 - 06:15 | 131   | 126  | 115                              | 17  | 11  |
| 26                          | 06:15 - 06:30 | 136   | 130  | 125                              | 11  | 5   |
| 27                          | 06:30 - 06:45 | 141   | 135  | 131                              | 9   | 4   |
| 28                          | 06:45 - 07:00 | 147   | 141  | 137                              | 11  | 5   |
| 29                          | 07:00 - 07:15 | 155   | 147  | 143                              | 13  | 4   |
| 30                          | 07:15 - 07:30 | 162   | 153  | 147                              | 15  | 6   |
| 31                          | 07:30 - 07:45 | 164   | 155  | 152                              | 12  | 3   |
| 32                          | 07:45 - 08:00 | 165   | 156  | 157                              | 9   | 1   |
| 33                          | 08:00 - 08:15 | 166   | 157  | 162                              | 5   | 5   |
| 34                          | 08:15 - 08:30 | 168   | 158  | 152                              | 15  | 6   |
| 35                          | 08:30 - 08:45 | 168   | 158  | 157                              | 11  | 1   |
| 36                          | 08:45 - 09:00 | 167   | 158  | 156                              | 12  | 2   |
| 37                          | 09:00 - 09:15 | 166   | 156  | 153                              | 12  | 3   |
| 38                          | 09:15 - 09:30 | 165   | 156  | 150                              | 15  | 5   |
| 39                          | 09:30 - 09:45 | 165   | 155  | 149                              | 16  | 7   |
| 40                          | 09:45 - 10:00 | 163   | 154  | 142                              | 21  | 12  |
| 41                          | 10:00 - 10:15 | 161   | 152  | 139                              | 23  | 14  |
| 42                          | 10:15 - 10:30 | 159   | 150  | 138                              | 21  | 12  |
| 43                          | 10:30 - 10:45 | 157   | 148  | 140                              | 16  | 7   |
| 44                          | 10:45 - 11:00 | 154   | 145  | 141                              | 13  | 4   |
| 45                          | 11:00 - 11:15 | 151   | 140  | 142                              | 9   | 3   |
| 46                          | 11:15 - 11:30 | 150   | 139  | 144                              | 6   | 5   |
| 47                          | 11:30 - 11:45 | 152   | 140  | 141                              | 11  | 0   |
| 48                          | 11:45 - 12:00 | 153   | 141  | 143                              | 10  | 2   |
| 49                          | 12:00 - 12:15 | 155   | 143  | 139                              | 16  | 4   |
| 50                          | 12:15 - 12:30 | 156   | 144  | 145                              | 11  | 0   |
| 51                          | 12:30 - 12:45 | 157   | 145  | 143                              | 13  | 1   |
| 52                          | 12:45 - 13:00 | 155   | 144  | 142                              | 13  | 1   |
| 53                          | 13:00 - 13:15 | 154   | 142  | 141                              | 13  | 1   |
| 54                          | 13:15 - 13:30 | 153   | 141  | 141                              | 12  | 1   |
| 55                          | 13:30 - 13:45 | 153   | 141  | 140                              | 13  | 1   |
| 56                          | 13:45 - 14:00 | 152   | 140  | 144                              | 8   | 4   |
| 57                          | 14:00 - 14:15 | 151   | 140  | 142                              | 9   | 3   |
| 58                          | 14:15 - 14:30 | 150   | 139  | 141                              | 9   | 3   |
| 59                          | 14:30 - 14:45 | 150   | 139  | 142                              | 8   | 3   |
| 60                          | 14:45 - 15:00 | 149   | 138  | 139                              | 10  | 1   |
| 61                          | 15:00 - 15:15 | 149   | 137  | 138                              | 10  | 1   |
| 62                          | 15:15 - 15:30 | 148   | 137  | 138                              | 10  | 1   |
| 63                          | 15:30 - 15:45 | 149   | 137  | 141                              | 8   | 3   |
| 64                          | 15:45 - 16:00 | 150   | 139  | 141                              | 9   | 2   |
| 65                          | 16:00 - 16:15 | 152   | 140  | 142                              | 10  | 1   |
| 66                          | 16:15 - 16:30 | 154   | 143  | 148                              | 7   | 5   |
| 67                          | 16:30 - 16:45 | 159   | 147  | 153                              | 6   | 6   |
| 68                          | 16:45 - 17:00 | 163   | 151  | 152                              | 11  | 1   |
| 69                          | 17:00 - 17:15 | 167   | 155  | 154                              | 13  | 1   |
| 70                          | 17:15 - 17:30 | 172   | 159  | 160                              | 12  | 1   |
| 71                          | 17:30 - 17:45 | 178   | 164  | 163                              | 14  | 1   |
| 72                          | 17:45 - 18:00 | 184   | 170  | 178                              | 5   | 9   |
| 73                          | 18:00 - 18:15 | 186   | 172  | 183                              | 3   | 11  |
| 74                          | 18:15 - 18:30 | 187   | 173  | 181                              | 6   | 8   |
| 75                          | 18:30 - 18:45 | 188   | 174  | 177                              | 11  | 3   |
| 76                          | 18:45 - 19:00 | 188   | 174  | 173                              | 15  | 1   |
| 77                          | 19:00 - 19:15 | 187   | 173  | 174                              | 13  | 1   |
| 78                          | 19:15 - 19:30 | 186   | 172  | 175                              | 11  | 3   |
| 79                          | 19:30 - 19:45 | 185   | 171  | 173                              | 12  | 2   |
| 80                          | 19:45 - 20:00 | 183   | 169  | 176                              | 7   | 6   |
| 81                          | 20:00 - 20:15 | 181   | 167  | 172                              | 8   | 5   |
| 82                          | 20:15 - 20:30 | 178   | 165  | 169                              | 9   | 4   |
| 83                          | 20:30 - 20:45 | 176   | 162  | 166                              | 10  | 3   |
| 84                          | 20:45 - 21:00 | 173   | 160  | 169                              | 4   | 9   |
| 85                          | 21:00 - 21:15 | 169   | 156  | 167                              | 2   | 11  |
| 86                          | 21:15 - 21:30 | 165   | 152  | 165                              | 0   | 13  |
| 87                          | 21:30 - 21:45 | 161   | 149  | 163                              | 2   | 15  |
| 88                          | 21:45 - 22:00 | 158   | 146  | 160                              | 2   | 14  |
| 89                          | 22:00 - 22:15 | 155   | 146  | 154                              | 1   | 8   |
| 90                          | 22:15 - 22:30 | 151   | 143  | 145                              | 6   | 2   |
| 91                          | 22:30 - 22:45 | 146   | 138  | 141                              | 5   | 3   |
| 92                          | 22:45 - 23:00 | 142   | 134  | 140                              | 2   | 7   |
| 93                          | 23:00 - 23:15 | 136   | 130  | 133                              | 3   | 3   |
| 94                          | 23:15 - 23:30 | 132   | 127  | 125                              | 7   | 2   |
| 95                          | 23:30 - 23:45 | 128   | 122  | 125                              | 3   | 2   |

|    |               |     |     |     |   |   |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|---|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 125 | 119 | 121 | 4 | 2 |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|---|

**असम के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Forecasting Error For Day Ahead and Intraday  
Forecast For Assam**

दिनांक/Date: 2/18/2025

| तिथि और समय / Date and Time |               | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block                | अवधि/ Period  | MW  | MW   | MW                               | MW  | MW  |
| 1                           | 00:00 - 00:15 | 1029  | 1090   | 1033                             | 4   | 57  |
| 2                           | 00:15 - 00:30 | 1001  | 1061   | 1033                             | 32  | 28  |
| 3                           | 00:30 - 00:45 | 979   | 1037   | 1015                             | 36  | 22  |
| 4                           | 00:45 - 01:00 | 963   | 1020   | 1002                             | 39  | 18  |
| 5                           | 01:00 - 01:15 | 951   | 977  | 986                              | 34  | 9   |
| 6                           | 01:15 - 01:30 | 940   | 965  | 968                              | 28  | 3   |
| 7                           | 01:30 - 01:45 | 929   | 954  | 957                              | 28  | 3   |
| 8                           | 01:45 - 02:00 | 918   | 942  | 945                              | 28  | 3   |
| 9                           | 02:00 - 02:15 | 907   | 931  | 933                              | 26  | 2   |
| 10                          | 02:15 - 02:30 | 897   | 921  | 924                              | 28  | 3   |
| 11                          | 02:30 - 02:45 | 888   | 912  | 907                              | 19  | 5   |
| 12                          | 02:45 - 03:00 | 880   | 904  | 890                              | 10  | 13  |
| 13                          | 03:00 - 03:15 | 873   | 896  | 885                              | 13  | 11  |
| 14                          | 03:15 - 03:30 | 866   | 889  | 878                              | 12  | 11  |
| 15                          | 03:30 - 03:45 | 861   | 884  | 875                              | 14  | 9   |
| 16                          | 03:45 - 04:00 | 859   | 882  | 876                              | 17  | 6   |
| 17                          | 04:00 - 04:15 | 860   | 883  | 885                              | 25  | 2   |
| 18                          | 04:15 - 04:30 | 865   | 888  | 889                              | 24  | 1   |
| 19                          | 04:30 - 04:45 | 873   | 896  | 885                              | 12  | 12  |
| 20                          | 04:45 - 05:00 | 886   | 910  | 888                              | 2   | 21  |
| 21                          | 05:00 - 05:15 | 901   | 926  | 917                              | 16  | 8   |
| 22                          | 05:15 - 05:30 | 920   | 945  | 954                              | 34  | 9   |
| 23                          | 05:30 - 05:45 | 940   | 965  | 986                              | 46  | 20  |
| 24                          | 05:45 - 06:00 | 965   | 991  | 1031                             | 66  | 41  |
| 25                          | 06:00 - 06:15 | 997   | 1024   | 1101                             | 103   | 77  |
| 26                          | 06:15 - 06:30 | 1039  | 1067   | 1196                             | 157   | 129   |
| 27                          | 06:30 - 06:45 | 1091  | 1120   | 1236                             | 144   | 115   |
| 28                          | 06:45 - 07:00 | 1145  | 1175   | 1333                             | 189   | 158   |
| 29                          | 07:00 - 07:15 | 1194  | 1318   | 1360                             | 166   | 42  |
| 30                          | 07:15 - 07:30 | 1227  | 1354   | 1398                             | 171   | 44  |
| 31                          | 07:30 - 07:45 | 1246  | 1375   | 1398                             | 152   | 23  |
| 32                          | 07:45 - 08:00 | 1250  | 1380   | 1384                             | 134   | 4   |
| 33                          | 08:00 - 08:15 | 1257  | 1455   | 1370                             | 113   | 85  |
| 34                          | 08:15 - 08:30 | 1271  | 1471   | 1360                             | 89  | 111   |
| 35                          | 08:30 - 08:45 | 1295  | 1499   | 1356                             | 61  | 143   |
| 36                          | 08:45 - 09:00 | 1315  | 1522   | 1328                             | 14  | 194   |
| 37                          | 09:00 - 09:15 | 1322  | 1424   | 1327                             | 5   | 98  |
| 38                          | 09:15 - 09:30 | 1313  | 1415   | 1322                             | 8   | 94  |
| 39                          | 09:30 - 09:45 | 1295  | 1396   | 1310                             | 15  | 86  |
| 40                          | 09:45 - 10:00 | 1273  | 1371   | 1287                             | 15  | 84  |
| 41                          | 10:00 - 10:15 | 1251  | 1229   | 1269                             | 19  | 40  |
| 42                          | 10:15 - 10:30 | 1235  | 1214   | 1254                             | 19  | 40  |
| 43                          | 10:30 - 10:45 | 1216  | 1195   | 1242                             | 26  | 47  |
| 44                          | 10:45 - 11:00 | 1195  | 1174   | 1236                             | 41  | 61  |
| 45                          | 11:00 - 11:15 | 1167  | 1201   | 1219                             | 52  | 19  |
| 46                          | 11:15 - 11:30 | 1151  | 1184   | 1212                             | 61  | 28  |
| 47                          | 11:30 - 11:45 | 1141  | 1174   | 1206                             | 65  | 32  |
| 48                          | 11:45 - 12:00 | 1139  | 1172   | 1197                             | 59  | 26  |
| 49                          | 12:00 - 12:15 | 1129  | 1162   | 1187                             | 58  | 25  |
| 50                          | 12:15 - 12:30 | 1117  | 1150   | 1195                             | 78  | 45  |
| 51                          | 12:30 - 12:45 | 1102  | 1134   | 1203                             | 101   | 69  |
| 52                          | 12:45 - 13:00 | 1087  | 1119   | 1192                             | 105   | 74  |
| 53                          | 13:00 - 13:15 | 1071  | 1143   | 1166                             | 96  | 23  |
| 54                          | 13:15 - 13:30 | 1052  | 1124   | 1143                             | 91  | 19  |
| 55                          | 13:30 - 13:45 | 1038  | 1108   | 1139                             | 101   | 31  |
| 56                          | 13:45 - 14:00 | 1029  | 1099   | 1173                             | 144   | 74  |
| 57                          | 14:00 - 14:15 | 1029  | 1143   | 1155                             | 127   | 12  |
| 58                          | 14:15 - 14:30 | 1031  | 1146   | 1162                             | 131   | 16  |
| 59                          | 14:30 - 14:45 | 1039  | 1155   | 1165                             | 126   | 10  |
| 60                          | 14:45 - 15:00 | 1048  | 1165   | 1148                             | 99  | 17  |
| 61                          | 15:00 - 15:15 | 1061  | 1180   | 1143                             | 81  | 37  |
| 62                          | 15:15 - 15:30 | 1073  | 1193   | 1147                             | 73  | 46  |
| 63                          | 15:30 - 15:45 | 1090  | 1212   | 1159                             | 68  | 53  |
| 64                          | 15:45 - 16:00 | 1112  | 1236   | 1169                             | 57  | 67  |
| 65                          | 16:00 - 16:15 | 1138  | 1223   | 1194                             | 56  | 29  |
| 66                          | 16:15 - 16:30 | 1167  | 1254   | 1215                             | 48  | 39  |
| 67                          | 16:30 - 16:45 | 1204  | 1294   | 1220                             | 16  | 73  |
| 68                          | 16:45 - 17:00 | 1257  | 1350   | 1263                             | 6   | 88  |
| 69                          | 17:00 - 17:15 | 1324  | 1402   | 1328                             | 4   | 74  |
| 70                          | 17:15 - 17:30 | 1395  | 1477   | 1405                             | 10  | 72  |
| 71                          | 17:30 - 17:45 | 1450  | 1535   | 1495                             | 45  | 40  |
| 72                          | 17:45 - 18:00 | 1480  | 1568   | 1541                             | 61  | 27  |
| 73                          | 18:00 - 18:15 | 1489  | 1555   | 1528                             | 39  | 27  |
| 74                          | 18:15 - 18:30 | 1490  | 1555   | 1524                             | 35  | 31  |
| 75                          | 18:30 - 18:45 | 1484  | 1550   | 1517                             | 33  | 33  |
| 76                          | 18:45 - 19:00 | 1479  | 1545   | 1508                             | 28  | 37  |
| 77                          | 19:00 - 19:15 | 1474  | 1539   | 1514                             | 40  | 25  |
| 78                          | 19:15 - 19:30 | 1470  | 1535   | 1494                             | 24  | 41  |
| 79                          | 19:30 - 19:45 | 1465  | 1529   | 1477                             | 12  | 53  |
| 80                          | 19:45 - 20:00 | 1458  | 1522   | 1472                             | 15  | 50  |
| 81                          | 20:00 - 20:15 | 1448  | 1512   | 1480                             | 32  | 32  |
| 82                          | 20:15 - 20:30 | 1438  | 1502   | 1479                             | 40  | 23  |
| 83                          | 20:30 - 20:45 | 1425  | 1488   | 1483                             | 58  | 5   |
| 84                          | 20:45 - 21:00 | 1407  | 1469   | 1477                             | 70  | 8   |
| 85                          | 21:00 - 21:15 | 1383  | 1444   | 1451                             | 68  | 7   |
| 86                          | 21:15 - 21:30 | 1354  | 1414   | 1413                             | 59  | 0   |
| 87                          | 21:30 - 21:45 | 1320  | 1378   | 1377                             | 57  | 1   |
| 88                          | 21:45 - 22:00 | 1284  | 1341   | 1344                             | 60  | 3   |
| 89                          | 22:00 - 22:15 | 1247  | 1303   | 1313                             | 65  | 10  |
| 90                          | 22:15 - 22:30 | 1212  | 1266   | 1269                             | 56  | 3   |
| 91                          | 22:30 - 22:45 | 1180  | 1232   | 1232                             | 52  | 0   |
| 92                          | 22:45 - 23:00 | 1153  | 1204   | 1202                             | 49  | 2   |
| 93                          | 23:00 - 23:15 | 1132  | 1182   | 1165                             | 33  | 16  |
| 94                          | 23:15 - 23:30 | 1112  | 1162   | 1136                             | 24  | 25  |
| 95                          | 23:30 - 23:45 | 1091  | 1140   | 1100                             | 9   | 39  |

|    |               |      |      |      |    |    |
|----|---------------|------|------|------|----|----|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 1068 | 1115 | 1078 | 10 | 37 |
|----|---------------|------|------|------|----|----|

**माणिपुर के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday  
Forecast For Manipur**

दिनांक/Date: 2/18/2025

| तिथि और समय / Date and Time |               | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block                | अवधि/ Period  | MW  | MW   | MW                               | MW  | MW  |
| 1                           | 00:00 - 00:15 | 95  | 98   | 111                              | 16  | 13  |
| 2                           | 00:15 - 00:30 | 94  | 97   | 109                              | 15  | 12  |
| 3                           | 00:30 - 00:45 | 93  | 95   | 110                              | 17  | 14  |
| 4                           | 00:45 - 01:00 | 92  | 94   | 109                              | 18  | 15  |
| 5                           | 01:00 - 01:15 | 91  | 97   | 108                              | 17  | 11  |
| 6                           | 01:15 - 01:30 | 90  | 97   | 108                              | 17  | 11  |
| 7                           | 01:30 - 01:45 | 90  | 96   | 107                              | 17  | 11  |
| 8                           | 01:45 - 02:00 | 88  | 94   | 107                              | 19  | 13  |
| 9                           | 02:00 - 02:15 | 86  | 95   | 106                              | 20  | 11  |
| 10                          | 02:15 - 02:30 | 84  | 93   | 106                              | 22  | 13  |
| 11                          | 02:30 - 02:45 | 83  | 91   | 107                              | 24  | 15  |
| 12                          | 02:45 - 03:00 | 82  | 91   | 107                              | 25  | 16  |
| 13                          | 03:00 - 03:15 | 82  | 94   | 107                              | 25  | 13  |
| 14                          | 03:15 - 03:30 | 82  | 94   | 107                              | 24  | 12  |
| 15                          | 03:30 - 03:45 | 83  | 95   | 106                              | 23  | 11  |
| 16                          | 03:45 - 04:00 | 83  | 95   | 106                              | 23  | 11  |
| 17                          | 04:00 - 04:15 | 85  | 101  | 107                              | 22  | 6   |
| 18                          | 04:15 - 04:30 | 89  | 105  | 109                              | 20  | 4   |
| 19                          | 04:30 - 04:45 | 94  | 111  | 112                              | 19  | 1   |
| 20                          | 04:45 - 05:00 | 101   | 120  | 116                              | 15  | 4   |
| 21                          | 05:00 - 05:15 | 109   | 127  | 126                              | 17  | 1   |
| 22                          | 05:15 - 05:30 | 120   | 140  | 133                              | 13  | 7   |
| 23                          | 05:30 - 05:45 | 134   | 157  | 147                              | 12  | 10  |
| 24                          | 05:45 - 06:00 | 148   | 173  | 163                              | 15  | 10  |
| 25                          | 06:00 - 06:15 | 155   | 181  | 176                              | 21  | 5   |
| 26                          | 06:15 - 06:30 | 158   | 184  | 165                              | 8   | 19  |
| 27                          | 06:30 - 06:45 | 158   | 184  | 161                              | 3   | 23  |
| 28                          | 06:45 - 07:00 | 159   | 185  | 161                              | 3   | 24  |
| 29                          | 07:00 - 07:15 | 158   | 179  | 159                              | 2   | 19  |
| 30                          | 07:15 - 07:30 | 156   | 177  | 158                              | 2   | 19  |
| 31                          | 07:30 - 07:45 | 156   | 177  | 143                              | 14  | 35  |
| 32                          | 07:45 - 08:00 | 157   | 178  | 149                              | 8   | 29  |
| 33                          | 08:00 - 08:15 | 157   | 169  | 154                              | 3   | 15  |
| 34                          | 08:15 - 08:30 | 155   | 167  | 160                              | 5   | 7   |
| 35                          | 08:30 - 08:45 | 152   | 165  | 157                              | 4   | 8   |
| 36                          | 08:45 - 09:00 | 151   | 163  | 156                              | 5   | 7   |
| 37                          | 09:00 - 09:15 | 150   | 157  | 150                              | 0   | 7   |
| 38                          | 09:15 - 09:30 | 151   | 158  | 148                              | 3   | 9   |
| 39                          | 09:30 - 09:45 | 154   | 160  | 152                              | 1   | 8   |
| 40                          | 09:45 - 10:00 | 158   | 165  | 161                              | 3   | 4   |
| 41                          | 10:00 - 10:15 | 160   | 166  | 160                              | 1   | 6   |
| 42                          | 10:15 - 10:30 | 159   | 165  | 157                              | 1   | 8   |
| 43                          | 10:30 - 10:45 | 154   | 160  | 154                              | 0   | 6   |
| 44                          | 10:45 - 11:00 | 151   | 157  | 151                              | 0   | 6   |
| 45                          | 11:00 - 11:15 | 148   | 154  | 149                              | 1   | 5   |
| 46                          | 11:15 - 11:30 | 144   | 150  | 140                              | 4   | 10  |
| 47                          | 11:30 - 11:45 | 140   | 145  | 138                              | 2   | 8   |
| 48                          | 11:45 - 12:00 | 133   | 138  | 136                              | 3   | 2   |
| 49                          | 12:00 - 12:15 | 128   | 134  | 135                              | 7   | 1   |
| 50                          | 12:15 - 12:30 | 125   | 130  | 134                              | 9   | 4   |
| 51                          | 12:30 - 12:45 | 125   | 130  | 131                              | 6   | 1   |
| 52                          | 12:45 - 13:00 | 124   | 129  | 126                              | 2   | 3   |
| 53                          | 13:00 - 13:15 | 123   | 128  | 127                              | 4   | 1   |
| 54                          | 13:15 - 13:30 | 120   | 125  | 126                              | 7   | 1   |
| 55                          | 13:30 - 13:45 | 117   | 122  | 129                              | 12  | 7   |
| 56                          | 13:45 - 14:00 | 117   | 122  | 129                              | 12  | 7   |
| 57                          | 14:00 - 14:15 | 118   | 123  | 131                              | 12  | 7   |
| 58                          | 14:15 - 14:30 | 120   | 125  | 127                              | 7   | 2   |
| 59                          | 14:30 - 14:45 | 121   | 126  | 128                              | 7   | 2   |
| 60                          | 14:45 - 15:00 | 122   | 127  | 130                              | 8   | 3   |
| 61                          | 15:00 - 15:15 | 125   | 130  | 134                              | 10  | 4   |
| 62                          | 15:15 - 15:30 | 129   | 134  | 137                              | 9   | 3   |
| 63                          | 15:30 - 15:45 | 134   | 139  | 142                              | 8   | 3   |
| 64                          | 15:45 - 16:00 | 141   | 147  | 149                              | 8   | 2   |
| 65                          | 16:00 - 16:15 | 149   | 155  | 155                              | 6   | 0   |
| 66                          | 16:15 - 16:30 | 160   | 167  | 163                              | 3   | 4   |
| 67                          | 16:30 - 16:45 | 170   | 177  | 189                              | 20  | 12  |
| 68                          | 16:45 - 17:00 | 181   | 188  | 187                              | 6   | 2   |
| 69                          | 17:00 - 17:15 | 189   | 197  | 186                              | 3   | 11  |
| 70                          | 17:15 - 17:30 | 193   | 201  | 194                              | 1   | 7   |
| 71                          | 17:30 - 17:45 | 190   | 198  | 200                              | 9   | 1   |
| 72                          | 17:45 - 18:00 | 185   | 193  | 195                              | 10  | 2   |
| 73                          | 18:00 - 18:15 | 182   | 190  | 188                              | 5   | 3   |
| 74                          | 18:15 - 18:30 | 179   | 187  | 188                              | 9   | 1   |
| 75                          | 18:30 - 18:45 | 181   | 188  | 185                              | 4   | 4   |
| 76                          | 18:45 - 19:00 | 183   | 191  | 189                              | 5   | 2   |
| 77                          | 19:00 - 19:15 | 187   | 195  | 189                              | 2   | 6   |
| 78                          | 19:15 - 19:30 | 187   | 195  | 185                              | 1   | 9   |
| 79                          | 19:30 - 19:45 | 187   | 195  | 184                              | 3   | 11  |
| 80                          | 19:45 - 20:00 | 188   | 196  | 182                              | 5   | 13  |
| 81                          | 20:00 - 20:15 | 187   | 195  | 174                              | 13  | 21  |
| 82                          | 20:15 - 20:30 | 185   | 193  | 144                              | 41  | 48  |
| 83                          | 20:30 - 20:45 | 180   | 188  | 144                              | 36  | 43  |
| 84                          | 20:45 - 21:00 | 174   | 182  | 146                              | 28  | 36  |
| 85                          | 21:00 - 21:15 | 167   | 164  | 143                              | 23  | 21  |
| 86                          | 21:15 - 21:30 | 159   | 157  | 140                              | 20  | 17  |
| 87                          | 21:30 - 21:45 | 151   | 148  | 127                              | 24  | 22  |
| 88                          | 21:45 - 22:00 | 143   | 141  | 123                              | 20  | 17  |
| 89                          | 22:00 - 22:15 | 135   | 125  | 121                              | 14  | 4   |
| 90                          | 22:15 - 22:30 | 127   | 118  | 108                              | 19  | 10  |
| 91                          | 22:30 - 22:45 | 121   | 112  | 106                              | 15  | 7   |
| 92                          | 22:45 - 23:00 | 115   | 107  | 103                              | 13  | 4   |
| 93                          | 23:00 - 23:15 | 110   | 99   | 100                              | 10  | 1   |
| 94                          | 23:15 - 23:30 | 105   | 95   | 97                               | 8   | 2   |
| 95                          | 23:30 - 23:45 | 102   | 92   | 91                               | 10  | 0   |
| 96                          | 23:45 - 24:00 | 100   | 90   | 90                               | 9   | 0   |

**मेघालय के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday  
Forecast For Meghalaya**

दिनांक/Date: 2/18/2025

| तिथि और समय / Date and Time |               | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block                | अवधि/ Period  | MW  | MW   | MW                               | MW  | MW  |
| 1                           | 00:00 - 00:15 | 196   | 192  | 191                              | 6   | 1   |
| 2                           | 00:15 - 00:30 | 193   | 189  | 189                              | 4   | 0   |
| 3                           | 00:30 - 00:45 | 189   | 185  | 190                              | 1   | 5   |
| 4                           | 00:45 - 01:00 | 184   | 180  | 183                              | 1   | 3   |
| 5                           | 01:00 - 01:15 | 181   | 177  | 183                              | 1   | 5   |
| 6                           | 01:15 - 01:30 | 179   | 175  | 180                              | 1   | 5   |
| 7                           | 01:30 - 01:45 | 176   | 172  | 177                              | 1   | 5   |
| 8                           | 01:45 - 02:00 | 174   | 170  | 177                              | 3   | 7   |
| 9                           | 02:00 - 02:15 | 172   | 168  | 175                              | 3   | 7   |
| 10                          | 02:15 - 02:30 | 170   | 167  | 175                              | 5   | 8   |
| 11                          | 02:30 - 02:45 | 169   | 166  | 176                              | 6   | 10  |
| 12                          | 02:45 - 03:00 | 169   | 165  | 176                              | 8   | 11  |
| 13                          | 03:00 - 03:15 | 169   | 165  | 172                              | 4   | 7   |
| 14                          | 03:15 - 03:30 | 169   | 165  | 173                              | 5   | 8   |
| 15                          | 03:30 - 03:45 | 170   | 166  | 172                              | 3   | 7   |
| 16                          | 03:45 - 04:00 | 169   | 166  | 171                              | 2   | 5   |
| 17                          | 04:00 - 04:15 | 169   | 165  | 168                              | 1   | 3   |
| 18                          | 04:15 - 04:30 | 170   | 166  | 167                              | 2   | 1   |
| 19                          | 04:30 - 04:45 | 171   | 167  | 166                              | 5   | 1   |
| 20                          | 04:45 - 05:00 | 173   | 169  | 171                              | 3   | 1   |
| 21                          | 05:00 - 05:15 | 177   | 173  | 178                              | 1   | 5   |
| 22                          | 05:15 - 05:30 | 180   | 176  | 186                              | 6   | 10  |
| 23                          | 05:30 - 05:45 | 186   | 182  | 195                              | 9   | 13  |
| 24                          | 05:45 - 06:00 | 193   | 189  | 205                              | 12  | 16  |
| 25                          | 06:00 - 06:15 | 205   | 200  | 222                              | 17  | 22  |
| 26                          | 06:15 - 06:30 | 217   | 213  | 247                              | 30  | 35  |
| 27                          | 06:30 - 06:45 | 233   | 228  | 268                              | 35  | 40  |
| 28                          | 06:45 - 07:00 | 246   | 241  | 273                              | 27  | 32  |
| 29                          | 07:00 - 07:15 | 255   | 257  | 278                              | 23  | 21  |
| 30                          | 07:15 - 07:30 | 261   | 264  | 283                              | 22  | 19  |
| 31                          | 07:30 - 07:45 | 266   | 268  | 285                              | 19  | 16  |
| 32                          | 07:45 - 08:00 | 269   | 271  | 279                              | 10  | 8   |
| 33                          | 08:00 - 08:15 | 268   | 277  | 268                              | 0   | 10  |
| 34                          | 08:15 - 08:30 | 266   | 275  | 260                              | 6   | 15  |
| 35                          | 08:30 - 08:45 | 264   | 274  | 252                              | 12  | 21  |
| 36                          | 08:45 - 09:00 | 261   | 270  | 248                              | 13  | 22  |
| 37                          | 09:00 - 09:15 | 258   | 262  | 242                              | 16  | 20  |
| 38                          | 09:15 - 09:30 | 254   | 258  | 236                              | 18  | 23  |
| 39                          | 09:30 - 09:45 | 251   | 255  | 232                              | 19  | 23  |
| 40                          | 09:45 - 10:00 | 247   | 251  | 226                              | 21  | 25  |
| 41                          | 10:00 - 10:15 | 244   | 241  | 231                              | 12  | 9   |
| 42                          | 10:15 - 10:30 | 241   | 238  | 228                              | 13  | 10  |
| 43                          | 10:30 - 10:45 | 238   | 235  | 227                              | 11  | 8   |
| 44                          | 10:45 - 11:00 | 236   | 233  | 225                              | 11  | 8   |
| 45                          | 11:00 - 11:15 | 235   | 227  | 224                              | 10  | 3   |
| 46                          | 11:15 - 11:30 | 234   | 226  | 221                              | 13  | 5   |
| 47                          | 11:30 - 11:45 | 233   | 226  | 218                              | 15  | 8   |
| 48                          | 11:45 - 12:00 | 233   | 226  | 218                              | 15  | 8   |
| 49                          | 12:00 - 12:15 | 232   | 225  | 219                              | 14  | 7   |
| 50                          | 12:15 - 12:30 | 232   | 225  | 218                              | 14  | 7   |
| 51                          | 12:30 - 12:45 | 231   | 224  | 216                              | 15  | 8   |
| 52                          | 12:45 - 13:00 | 231   | 224  | 210                              | 21  | 14  |
| 53                          | 13:00 - 13:15 | 230   | 223  | 206                              | 24  | 17  |
| 54                          | 13:15 - 13:30 | 228   | 221  | 206                              | 21  | 14  |
| 55                          | 13:30 - 13:45 | 225   | 218  | 213                              | 13  | 6   |
| 56                          | 13:45 - 14:00 | 224   | 217  | 215                              | 8   | 1   |
| 57                          | 14:00 - 14:15 | 224   | 217  | 220                              | 3   | 3   |
| 58                          | 14:15 - 14:30 | 225   | 218  | 223                              | 2   | 5   |
| 59                          | 14:30 - 14:45 | 228   | 221  | 230                              | 2   | 9   |
| 60                          | 14:45 - 15:00 | 232   | 225  | 235                              | 3   | 10  |
| 61                          | 15:00 - 15:15 | 234   | 227  | 245                              | 11  | 18  |
| 62                          | 15:15 - 15:30 | 236   | 229  | 254                              | 18  | 25  |
| 63                          | 15:30 - 15:45 | 239   | 232  | 235                              | 4   | 3   |
| 64                          | 15:45 - 16:00 | 243   | 236  | 234                              | 9   | 2   |
| 65                          | 16:00 - 16:15 | 247   | 240  | 247                              | 1   | 7   |
| 66                          | 16:15 - 16:30 | 254   | 246  | 249                              | 5   | 2   |
| 67                          | 16:30 - 16:45 | 263   | 255  | 259                              | 4   | 4   |
| 68                          | 16:45 - 17:00 | 274   | 266  | 259                              | 14  | 6   |
| 69                          | 17:00 - 17:15 | 284   | 275  | 275                              | 9   | 1   |
| 70                          | 17:15 - 17:30 | 296   | 287  | 284                              | 12  | 3   |
| 71                          | 17:30 - 17:45 | 310   | 300  | 300                              | 10  | 1   |
| 72                          | 17:45 - 18:00 | 320   | 311  | 316                              | 5   | 5   |
| 73                          | 18:00 - 18:15 | 326   | 316  | 322                              | 4   | 6   |
| 74                          | 18:15 - 18:30 | 326   | 316  | 331                              | 5   | 15  |
| 75                          | 18:30 - 18:45 | 325   | 315  | 328                              | 3   | 13  |
| 76                          | 18:45 - 19:00 | 324   | 315  | 318                              | 6   | 3   |
| 77                          | 19:00 - 19:15 | 321   | 311  | 322                              | 1   | 11  |
| 78                          | 19:15 - 19:30 | 319   | 310  | 323                              | 4   | 14  |
| 79                          | 19:30 - 19:45 | 317   | 307  | 318                              | 1   | 11  |
| 80                          | 19:45 - 20:00 | 314   | 304  | 310                              | 4   | 6   |
| 81                          | 20:00 - 20:15 | 309   | 300  | 302                              | 7   | 2   |
| 82                          | 20:15 - 20:30 | 307   | 298  | 305                              | 3   | 7   |
| 83                          | 20:30 - 20:45 | 306   | 297  | 298                              | 8   | 1   |
| 84                          | 20:45 - 21:00 | 304   | 294  | 291                              | 12  | 3   |
| 85                          | 21:00 - 21:15 | 298   | 289  | 288                              | 10  | 1   |
| 86                          | 21:15 - 21:30 | 291   | 282  | 284                              | 7   | 2   |
| 87                          | 21:30 - 21:45 | 285   | 276  | 277                              | 8   | 1   |
| 88                          | 21:45 - 22:00 | 278   | 269  | 267                              | 11  | 3   |
| 89                          | 22:00 - 22:15 | 270   | 261  | 262                              | 8   | 0   |
| 90                          | 22:15 - 22:30 | 259   | 251  | 254                              | 5   | 3   |
| 91                          | 22:30 - 22:45 | 249   | 242  | 245                              | 4   | 4   |
| 92                          | 22:45 - 23:00 | 239   | 232  | 236                              | 3   | 4   |
| 93                          | 23:00 - 23:15 | 231   | 224  | 224                              | 7   | 0   |
| 94                          | 23:15 - 23:30 | 222   | 215  | 218                              | 4   | 3   |



|    |               |     |     |     |   |   |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|---|
| 95 | 23:30 - 23:45 | 213 | 207 | 210 | 3 | 3 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 205 | 198 | 205 | 0 | 6 |

**मिज़ोरम के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Mizoram**

दिनांक /Date: 2/18/2025

| तिथि और समय / Date and Time |               | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block                | अवधि/ Period  | MW  | MW   | MW                               | MW  | MW  |
| 1                           | 00:00 - 00:15 | 59  | 61   | 58                               | 1   | 3   |
| 2                           | 00:15 - 00:30 | 57  | 59   | 57                               | 0   | 2   |
| 3                           | 00:30 - 00:45 | 55  | 57   | 55                               | 0   | 2   |
| 4                           | 00:45 - 01:00 | 53  | 55   | 53                               | 0   | 2   |
| 5                           | 01:00 - 01:15 | 52  | 53   | 52                               | 0   | 1   |
| 6                           | 01:15 - 01:30 | 51  | 52   | 51                               | 0   | 1   |
| 7                           | 01:30 - 01:45 | 50  | 51   | 51                               | 1   | 0   |
| 8                           | 01:45 - 02:00 | 49  | 51   | 50                               | 1   | 0   |
| 9                           | 02:00 - 02:15 | 49  | 50   | 49                               | 1   | 1   |
| 10                          | 02:15 - 02:30 | 48  | 49   | 48                               | 0   | 2   |
| 11                          | 02:30 - 02:45 | 47  | 49   | 47                               | 1   | 2   |
| 12                          | 02:45 - 03:00 | 47  | 48   | 47                               | 0   | 1   |
| 13                          | 03:00 - 03:15 | 46  | 48   | 47                               | 0   | 1   |
| 14                          | 03:15 - 03:30 | 46  | 47   | 47                               | 1   | 0   |
| 15                          | 03:30 - 03:45 | 45  | 46   | 46                               | 2   | 0   |
| 16                          | 03:45 - 04:00 | 44  | 45   | 46                               | 2   | 1   |
| 17                          | 04:00 - 04:15 | 44  | 45   | 47                               | 3   | 1   |
| 18                          | 04:15 - 04:30 | 44  | 46   | 48                               | 3   | 2   |
| 19                          | 04:30 - 04:45 | 45  | 46   | 48                               | 3   | 2   |
| 20                          | 04:45 - 05:00 | 46  | 47   | 49                               | 3   | 2   |
| 21                          | 05:00 - 05:15 | 47  | 48   | 52                               | 5   | 3   |
| 22                          | 05:15 - 05:30 | 49  | 51   | 55                               | 6   | 4   |
| 23                          | 05:30 - 05:45 | 53  | 54   | 59                               | 7   | 5   |
| 24                          | 05:45 - 06:00 | 58  | 60   | 66                               | 8   | 7   |
| 25                          | 06:00 - 06:15 | 66  | 67   | 76                               | 11  | 9   |
| 26                          | 06:15 - 06:30 | 75  | 77   | 85                               | 10  | 8   |
| 27                          | 06:30 - 06:45 | 84  | 87   | 95                               | 11  | 9   |
| 28                          | 06:45 - 07:00 | 93  | 95   | 102                              | 9   | 7   |
| 29                          | 07:00 - 07:15 | 100   | 106  | 108                              | 8   | 2   |
| 30                          | 07:15 - 07:30 | 105   | 111  | 106                              | 1   | 5   |
| 31                          | 07:30 - 07:45 | 109   | 115  | 110                              | 1   | 5   |
| 32                          | 07:45 - 08:00 | 110   | 116  | 108                              | 2   | 8   |
| 33                          | 08:00 - 08:15 | 111   | 115  | 107                              | 4   | 8   |
| 34                          | 08:15 - 08:30 | 109   | 113  | 102                              | 7   | 11  |
| 35                          | 08:30 - 08:45 | 106   | 110  | 99                               | 8   | 12  |
| 36                          | 08:45 - 09:00 | 103   | 107  | 94                               | 9   | 13  |
| 37                          | 09:00 - 09:15 | 100   | 101  | 91                               | 9   | 10  |
| 38                          | 09:15 - 09:30 | 98  | 99   | 87                               | 11  | 12  |
| 39                          | 09:30 - 09:45 | 96  | 97   | 85                               | 11  | 12  |
| 40                          | 09:45 - 10:00 | 94  | 95   | 85                               | 9   | 10  |
| 41                          | 10:00 - 10:15 | 92  | 89   | 83                               | 8   | 6   |
| 42                          | 10:15 - 10:30 | 90  | 87   | 82                               | 8   | 5   |
| 43                          | 10:30 - 10:45 | 89  | 86   | 80                               | 9   | 7   |
| 44                          | 10:45 - 11:00 | 88  | 86   | 80                               | 8   | 5   |
| 45                          | 11:00 - 11:15 | 87  | 82   | 81                               | 7   | 2   |
| 46                          | 11:15 - 11:30 | 85  | 80   | 81                               | 4   | 1   |
| 47                          | 11:30 - 11:45 | 83  | 78   | 81                               | 2   | 3   |
| 48                          | 11:45 - 12:00 | 82  | 77   | 82                               | 0   | 5   |
| 49                          | 12:00 - 12:15 | 82  | 77   | 82                               | 0   | 4   |
| 50                          | 12:15 - 12:30 | 83  | 78   | 81                               | 2   | 3   |
| 51                          | 12:30 - 12:45 | 85  | 80   | 83                               | 2   | 3   |
| 52                          | 12:45 - 13:00 | 87  | 82   | 84                               | 3   | 2   |
| 53                          | 13:00 - 13:15 | 88  | 84   | 84                               | 4   | 1   |
| 54                          | 13:15 - 13:30 | 89  | 84   | 87                               | 3   | 2   |
| 55                          | 13:30 - 13:45 | 90  | 85   | 86                               | 4   | 1   |
| 56                          | 13:45 - 14:00 | 92  | 87   | 87                               | 5   | 0   |
| 57                          | 14:00 - 14:15 | 94  | 89   | 91                               | 2   | 3   |
| 58                          | 14:15 - 14:30 | 96  | 90   | 91                               | 4   | 1   |
| 59                          | 14:30 - 14:45 | 98  | 93   | 95                               | 3   | 2   |
| 60                          | 14:45 - 15:00 | 102   | 96   | 95                               | 7   | 1   |
| 61                          | 15:00 - 15:15 | 107   | 101  | 101                              | 5   | 1   |
| 62                          | 15:15 - 15:30 | 112   | 106  | 107                              | 5   | 1   |
| 63                          | 15:30 - 15:45 | 116   | 110  | 117                              | 1   | 8   |
| 64                          | 15:45 - 16:00 | 120   | 113  | 121                              | 2   | 8   |
| 65                          | 16:00 - 16:15 | 121   | 115  | 125                              | 4   | 11  |
| 66                          | 16:15 - 16:30 | 124   | 117  | 129                              | 5   | 12  |
| 67                          | 16:30 - 16:45 | 126   | 119  | 132                              | 6   | 13  |
| 68                          | 16:45 - 17:00 | 130   | 122  | 131                              | 2   | 9   |
| 69                          | 17:00 - 17:15 | 134   | 129  | 136                              | 2   | 7   |
| 70                          | 17:15 - 17:30 | 138   | 134  | 140                              | 2   | 6   |
| 71                          | 17:30 - 17:45 | 141   | 137  | 144                              | 2   | 7   |
| 72                          | 17:45 - 18:00 | 142   | 138  | 142                              | 0   | 5   |
| 73                          | 18:00 - 18:15 | 142   | 139  | 139                              | 2   | 0   |
| 74                          | 18:15 - 18:30 | 140   | 138  | 136                              | 5   | 2   |
| 75                          | 18:30 - 18:45 | 139   | 136  | 133                              | 5   | 3   |
| 76                          | 18:45 - 19:00 | 137   | 135  | 130                              | 7   | 4   |
| 77                          | 19:00 - 19:15 | 136   | 133  | 129                              | 6   | 4   |
| 78                          | 19:15 - 19:30 | 134   | 132  | 127                              | 7   | 5   |
| 79                          | 19:30 - 19:45 | 133   | 131  | 125                              | 8   | 6   |
| 80                          | 19:45 - 20:00 | 132   | 129  | 122                              | 9   | 7   |
| 81                          | 20:00 - 20:15 | 130   | 127  | 120                              | 10  | 8   |
| 82                          | 20:15 - 20:30 | 127   | 124  | 117                              | 9   | 7   |
| 83                          | 20:30 - 20:45 | 123   | 121  | 115                              | 8   | 6   |
| 84                          | 20:45 - 21:00 | 120   | 118  | 113                              | 7   | 5   |
| 85                          | 21:00 - 21:15 | 117   | 113  | 108                              | 8   | 4   |
| 86                          | 21:15 - 21:30 | 113   | 109  | 102                              | 10  | 6   |
| 87                          | 21:30 - 21:45 | 107   | 104  | 97                               | 10  | 7   |
| 88                          | 21:45 - 22:00 | 102   | 98   | 93                               | 9   | 6   |
| 89                          | 22:00 - 22:15 | 96  | 91   | 88                               | 8   | 3   |
| 90                          | 22:15 - 22:30 | 89  | 85   | 82                               | 7   | 3   |
| 91                          | 22:30 - 22:45 | 83  | 79   | 77                               | 6   | 2   |
| 92                          | 22:45 - 23:00 | 78  | 74   | 73                               | 5   | 1   |
| 93                          | 23:00 - 23:15 | 73  | 70   | 69                               | 4   | 1   |

|    |               |    |    |    |   |   |
|----|---------------|----|----|----|---|---|
| 94 | 23:15 - 23:30 | 69 | 66 | 66 | 3 | 0 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 66 | 62 | 63 | 3 | 1 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 62 | 59 | 60 | 2 | 1 |

**नागालैंड के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Nagaland**

दिनांक/Date: 2/18/2025

| तिथि और समय / Date and Time |               | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block                | अवधि/ Period  | MW  | MW   | MW                               | MW  | MW  |
| 1                           | 00:00 - 00:15 | 70  | 63   | 61                               | 9   | 1   |
| 2                           | 00:15 - 00:30 | 68  | 61   | 61                               | 7   | 1   |
| 3                           | 00:30 - 00:45 | 67  | 60   | 62                               | 5   | 2   |
| 4                           | 00:45 - 01:00 | 66  | 60   | 61                               | 5   | 1   |
| 5                           | 01:00 - 01:15 | 65  | 59   | 60                               | 6   | 1   |
| 6                           | 01:15 - 01:30 | 65  | 58   | 59                               | 6   | 0   |
| 7                           | 01:30 - 01:45 | 64  | 58   | 57                               | 7   | 1   |
| 8                           | 01:45 - 02:00 | 64  | 57   | 57                               | 7   | 1   |
| 9                           | 02:00 - 02:15 | 64  | 57   | 56                               | 7   | 1   |
| 10                          | 02:15 - 02:30 | 63  | 57   | 56                               | 7   | 1   |
| 11                          | 02:30 - 02:45 | 63  | 56   | 56                               | 7   | 1   |
| 12                          | 02:45 - 03:00 | 63  | 56   | 54                               | 8   | 2   |
| 13                          | 03:00 - 03:15 | 62  | 56   | 53                               | 9   | 3   |
| 14                          | 03:15 - 03:30 | 62  | 56   | 52                               | 11  | 4   |
| 15                          | 03:30 - 03:45 | 62  | 56   | 52                               | 10  | 4   |
| 16                          | 03:45 - 04:00 | 63  | 56   | 53                               | 10  | 4   |
| 17                          | 04:00 - 04:15 | 64  | 56   | 52                               | 12  | 5   |
| 18                          | 04:15 - 04:30 | 65  | 57   | 54                               | 11  | 3   |
| 19                          | 04:30 - 04:45 | 67  | 59   | 58                               | 9   | 1   |
| 20                          | 04:45 - 05:00 | 70  | 61   | 61                               | 9   | 1   |
| 21                          | 05:00 - 05:15 | 74  | 64   | 66                               | 7   | 2   |
| 22                          | 05:15 - 05:30 | 80  | 69   | 73                               | 7   | 4   |
| 23                          | 05:30 - 05:45 | 90  | 78   | 85                               | 5   | 7   |
| 24                          | 05:45 - 06:00 | 103   | 90   | 101                              | 2   | 11  |
| 25                          | 06:00 - 06:15 | 116   | 101  | 118                              | 2   | 17  |
| 26                          | 06:15 - 06:30 | 125   | 108  | 129                              | 4   | 21  |
| 27                          | 06:30 - 06:45 | 130   | 113  | 137                              | 8   | 25  |
| 28                          | 06:45 - 07:00 | 133   | 116  | 144                              | 10  | 28  |
| 29                          | 07:00 - 07:15 | 138   | 125  | 150                              | 13  | 26  |
| 30                          | 07:15 - 07:30 | 140   | 127  | 144                              | 4   | 17  |
| 31                          | 07:30 - 07:45 | 138   | 125  | 133                              | 5   | 8   |
| 32                          | 07:45 - 08:00 | 134   | 121  | 122                              | 11  | 1   |
| 33                          | 08:00 - 08:15 | 130   | 122  | 124                              | 6   | 2   |
| 34                          | 08:15 - 08:30 | 129   | 121  | 128                              | 1   | 7   |
| 35                          | 08:30 - 08:45 | 125   | 118  | 125                              | 0   | 7   |
| 36                          | 08:45 - 09:00 | 121   | 113  | 111                              | 10  | 3   |
| 37                          | 09:00 - 09:15 | 114   | 108  | 109                              | 6   | 1   |
| 38                          | 09:15 - 09:30 | 112   | 105  | 113                              | 1   | 8   |
| 39                          | 09:30 - 09:45 | 109   | 102  | 107                              | 2   | 5   |
| 40                          | 09:45 - 10:00 | 106   | 100  | 107                              | 1   | 7   |
| 41                          | 10:00 - 10:15 | 104   | 98   | 105                              | 1   | 7   |
| 42                          | 10:15 - 10:30 | 103   | 97   | 106                              | 3   | 9   |
| 43                          | 10:30 - 10:45 | 103   | 97   | 106                              | 3   | 9   |
| 44                          | 10:45 - 11:00 | 103   | 97   | 103                              | 0   | 6   |
| 45                          | 11:00 - 11:15 | 102   | 98   | 97                               | 5   | 1   |
| 46                          | 11:15 - 11:30 | 100   | 96   | 97                               | 3   | 1   |
| 47                          | 11:30 - 11:45 | 98  | 94   | 98                               | 0   | 4   |
| 48                          | 11:45 - 12:00 | 97  | 93   | 101                              | 4   | 8   |
| 49                          | 12:00 - 12:15 | 96  | 92   | 102                              | 6   | 10  |
| 50                          | 12:15 - 12:30 | 96  | 92   | 107                              | 10  | 14  |
| 51                          | 12:30 - 12:45 | 97  | 93   | 109                              | 11  | 15  |
| 52                          | 12:45 - 13:00 | 100   | 96   | 108                              | 8   | 12  |
| 53                          | 13:00 - 13:15 | 101   | 100  | 109                              | 7   | 8   |
| 54                          | 13:15 - 13:30 | 102   | 100  | 111                              | 10  | 11  |
| 55                          | 13:30 - 13:45 | 104   | 103  | 106                              | 2   | 4   |
| 56                          | 13:45 - 14:00 | 109   | 108  | 105                              | 4   | 2   |
| 57                          | 14:00 - 14:15 | 115   | 111  | 109                              | 6   | 2   |
| 58                          | 14:15 - 14:30 | 119   | 114  | 122                              | 3   | 7   |
| 59                          | 14:30 - 14:45 | 122   | 118  | 121                              | 1   | 3   |
| 60                          | 14:45 - 15:00 | 126   | 122  | 123                              | 4   | 1   |
| 61                          | 15:00 - 15:15 | 130   | 125  | 122                              | 8   | 3   |
| 62                          | 15:15 - 15:30 | 132   | 127  | 126                              | 6   | 2   |
| 63                          | 15:30 - 15:45 | 134   | 129  | 130                              | 3   | 1   |
| 64                          | 15:45 - 16:00 | 136   | 131  | 133                              | 3   | 2   |
| 65                          | 16:00 - 16:15 | 136   | 131  | 105                              | 31  | 26  |
| 66                          | 16:15 - 16:30 | 138   | 133  | 98                               | 40  | 35  |
| 67                          | 16:30 - 16:45 | 139   | 134  | 100                              | 39  | 34  |
| 68                          | 16:45 - 17:00 | 143   | 137  | 127                              | 16  | 11  |
| 69                          | 17:00 - 17:15 | 145   | 133  | 140                              | 5   | 7   |
| 70                          | 17:15 - 17:30 | 148   | 136  | 146                              | 3   | 10  |
| 71                          | 17:30 - 17:45 | 151   | 137  | 148                              | 3   | 11  |
| 72                          | 17:45 - 18:00 | 150   | 137  | 141                              | 9   | 4   |
| 73                          | 18:00 - 18:15 | 146   | 138  | 126                              | 20  | 12  |
| 74                          | 18:15 - 18:30 | 141   | 133  | 131                              | 10  | 2   |
| 75                          | 18:30 - 18:45 | 135   | 127  | 125                              | 10  | 2   |
| 76                          | 18:45 - 19:00 | 130   | 122  | 122                              | 8   | 0   |
| 77                          | 19:00 - 19:15 | 127   | 119  | 123                              | 4   | 4   |
| 78                          | 19:15 - 19:30 | 125   | 118  | 118                              | 7   | 1   |
| 79                          | 19:30 - 19:45 | 123   | 116  | 123                              | 0   | 7   |
| 80                          | 19:45 - 20:00 | 118   | 111  | 120                              | 3   | 9   |
| 81                          | 20:00 - 20:15 | 112   | 105  | 123                              | 11  | 17  |
| 82                          | 20:15 - 20:30 | 109   | 103  | 118                              | 9   | 15  |
| 83                          | 20:30 - 20:45 | 110   | 104  | 111                              | 1   | 7   |
| 84                          | 20:45 - 21:00 | 109   | 103  | 106                              | 3   | 3   |
| 85                          | 21:00 - 21:15 | 105   | 102  | 103                              | 3   | 1   |
| 86                          | 21:15 - 21:30 | 100   | 97   | 99                               | 1   | 2   |
| 87                          | 21:30 - 21:45 | 96  | 92   | 94                               | 2   | 1   |
| 88                          | 21:45 - 22:00 | 91  | 88   | 90                               | 2   | 2   |
| 89                          | 22:00 - 22:15 | 87  | 84   | 86                               | 1   | 2   |
| 90                          | 22:15 - 22:30 | 83  | 80   | 81                               | 2   | 0   |
| 91                          | 22:30 - 22:45 | 80  | 77   | 78                               | 1   | 1   |
| 92                          | 22:45 - 23:00 | 77  | 74   | 75                               | 2   | 0   |
| 93                          | 23:00 - 23:15 | 74  | 71   | 72                               | 1   | 1   |
| 94                          | 23:15 - 23:30 | 72  | 69   | 71                               | 0   | 2   |

|    |               |    |    |    |   |   |
|----|---------------|----|----|----|---|---|
| 95 | 23:30 - 23:45 | 70 | 68 | 69 | 1 | 1 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 70 | 67 | 65 | 5 | 2 |

**त्रिपुरा के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Tripura**

दिनांक/Date: 2/18/2025

| तिथि और समय / Date and Time |               | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block                | अवधि/ Period  | MW  | MW   | MW                               | MW  | MW  |
| 1                           | 00:00 - 00:15 | 197   | 213  | 211                              | 14  | 2   |
| 2                           | 00:15 - 00:30 | 193   | 209  | 207                              | 14  | 2   |
| 3                           | 00:30 - 00:45 | 190   | 206  | 203                              | 13  | 3   |
| 4                           | 00:45 - 01:00 | 187   | 202  | 198                              | 11  | 5   |
| 5                           | 01:00 - 01:15 | 184   | 199  | 196                              | 13  | 3   |
| 6                           | 01:15 - 01:30 | 180   | 195  | 193                              | 13  | 2   |
| 7                           | 01:30 - 01:45 | 178   | 193  | 189                              | 12  | 3   |
| 8                           | 01:45 - 02:00 | 176   | 191  | 190                              | 14  | 1   |
| 9                           | 02:00 - 02:15 | 176   | 190  | 188                              | 12  | 3   |
| 10                          | 02:15 - 02:30 | 175   | 190  | 186                              | 11  | 4   |
| 11                          | 02:30 - 02:45 | 175   | 189  | 184                              | 9   | 6   |
| 12                          | 02:45 - 03:00 | 174   | 188  | 183                              | 10  | 5   |
| 13                          | 03:00 - 03:15 | 172   | 187  | 183                              | 11  | 4   |
| 14                          | 03:15 - 03:30 | 171   | 186  | 182                              | 11  | 4   |
| 15                          | 03:30 - 03:45 | 170   | 184  | 183                              | 13  | 1   |
| 16                          | 03:45 - 04:00 | 169   | 184  | 182                              | 12  | 2   |
| 17                          | 04:00 - 04:15 | 169   | 183  | 183                              | 15  | 0   |
| 18                          | 04:15 - 04:30 | 170   | 184  | 181                              | 12  | 3   |
| 19                          | 04:30 - 04:45 | 170   | 184  | 182                              | 12  | 2   |
| 20                          | 04:45 - 05:00 | 171   | 186  | 184                              | 13  | 2   |
| 21                          | 05:00 - 05:15 | 172   | 187  | 184                              | 12  | 2   |
| 22                          | 05:15 - 05:30 | 173   | 187  | 190                              | 17  | 2   |
| 23                          | 05:30 - 05:45 | 174   | 188  | 189                              | 15  | 1   |
| 24                          | 05:45 - 06:00 | 177   | 192  | 190                              | 13  | 2   |
| 25                          | 06:00 - 06:15 | 184   | 200  | 198                              | 14  | 2   |
| 26                          | 06:15 - 06:30 | 195   | 211  | 205                              | 11  | 6   |
| 27                          | 06:30 - 06:45 | 207   | 225  | 215                              | 7   | 10  |
| 28                          | 06:45 - 07:00 | 222   | 240  | 235                              | 13  | 5   |
| 29                          | 07:00 - 07:15 | 235   | 255  | 252                              | 17  | 3   |
| 30                          | 07:15 - 07:30 | 247   | 268  | 267                              | 20  | 1   |
| 31                          | 07:30 - 07:45 | 256   | 277  | 273                              | 17  | 4   |
| 32                          | 07:45 - 08:00 | 262   | 284  | 276                              | 14  | 8   |
| 33                          | 08:00 - 08:15 | 266   | 289  | 282                              | 15  | 7   |
| 34                          | 08:15 - 08:30 | 268   | 291  | 283                              | 15  | 8   |
| 35                          | 08:30 - 08:45 | 268   | 291  | 284                              | 16  | 7   |
| 36                          | 08:45 - 09:00 | 265   | 288  | 282                              | 17  | 6   |
| 37                          | 09:00 - 09:15 | 262   | 284  | 280                              | 18  | 4   |
| 38                          | 09:15 - 09:30 | 258   | 280  | 278                              | 20  | 1   |
| 39                          | 09:30 - 09:45 | 253   | 274  | 275                              | 22  | 0   |
| 40                          | 09:45 - 10:00 | 248   | 269  | 270                              | 23  | 2   |
| 41                          | 10:00 - 10:15 | 242   | 263  | 266                              | 24  | 3   |
| 42                          | 10:15 - 10:30 | 238   | 258  | 258                              | 20  | 0   |
| 43                          | 10:30 - 10:45 | 235   | 255  | 254                              | 19  | 0   |
| 44                          | 10:45 - 11:00 | 236   | 256  | 254                              | 18  | 2   |
| 45                          | 11:00 - 11:15 | 238   | 259  | 251                              | 12  | 8   |
| 46                          | 11:15 - 11:30 | 241   | 261  | 254                              | 12  | 8   |
| 47                          | 11:30 - 11:45 | 241   | 262  | 252                              | 11  | 9   |
| 48                          | 11:45 - 12:00 | 239   | 259  | 255                              | 17  | 4   |
| 49                          | 12:00 - 12:15 | 235   | 254  | 252                              | 17  | 2   |
| 50                          | 12:15 - 12:30 | 231   | 250  | 254                              | 23  | 4   |
| 51                          | 12:30 - 12:45 | 230   | 249  | 256                              | 26  | 6   |
| 52                          | 12:45 - 13:00 | 231   | 250  | 260                              | 29  | 10  |
| 53                          | 13:00 - 13:15 | 231   | 250  | 262                              | 31  | 11  |
| 54                          | 13:15 - 13:30 | 231   | 250  | 258                              | 27  | 8   |
| 55                          | 13:30 - 13:45 | 228   | 248  | 256                              | 27  | 8   |
| 56                          | 13:45 - 14:00 | 225   | 244  | 255                              | 30  | 11  |
| 57                          | 14:00 - 14:15 | 221   | 240  | 252                              | 31  | 12  |
| 58                          | 14:15 - 14:30 | 218   | 236  | 251                              | 33  | 15  |
| 59                          | 14:30 - 14:45 | 216   | 234  | 250                              | 34  | 15  |
| 60                          | 14:45 - 15:00 | 214   | 232  | 247                              | 33  | 15  |
| 61                          | 15:00 - 15:15 | 212   | 234  | 243                              | 30  | 9   |
| 62                          | 15:15 - 15:30 | 212   | 233  | 242                              | 30  | 9   |
| 63                          | 15:30 - 15:45 | 211   | 233  | 242                              | 31  | 9   |
| 64                          | 15:45 - 16:00 | 212   | 233  | 242                              | 30  | 9   |
| 65                          | 16:00 - 16:15 | 213   | 234  | 245                              | 32  | 11  |
| 66                          | 16:15 - 16:30 | 215   | 237  | 250                              | 35  | 13  |
| 67                          | 16:30 - 16:45 | 220   | 242  | 244                              | 24  | 2   |
| 68                          | 16:45 - 17:00 | 227   | 250  | 252                              | 25  | 2   |
| 69                          | 17:00 - 17:15 | 236   | 259  | 258                              | 22  | 2   |
| 70                          | 17:15 - 17:30 | 251   | 276  | 270                              | 19  | 6   |
| 71                          | 17:30 - 17:45 | 267   | 294  | 279                              | 12  | 15  |
| 72                          | 17:45 - 18:00 | 281   | 309  | 288                              | 7   | 21  |
| 73                          | 18:00 - 18:15 | 286   | 315  | 285                              | 1   | 29  |
| 74                          | 18:15 - 18:30 | 285   | 314  | 276                              | 9   | 38  |
| 75                          | 18:30 - 18:45 | 283   | 312  | 268                              | 15  | 43  |
| 76                          | 18:45 - 19:00 | 278   | 306  | 270                              | 8   | 36  |
| 77                          | 19:00 - 19:15 | 274   | 292  | 273                              | 1   | 19  |
| 78                          | 19:15 - 19:30 | 272   | 290  | 273                              | 1   | 17  |
| 79                          | 19:30 - 19:45 | 273   | 290  | 273                              | 0   | 17  |
| 80                          | 19:45 - 20:00 | 273   | 291  | 273                              | 0   | 18  |
| 81                          | 20:00 - 20:15 | 271   | 281  | 272                              | 0   | 9   |
| 82                          | 20:15 - 20:30 | 269   | 278  | 271                              | 2   | 7   |
| 83                          | 20:30 - 20:45 | 266   | 276  | 266                              | 0   | 10  |
| 84                          | 20:45 - 21:00 | 264   | 273  | 265                              | 1   | 8   |
| 85                          | 21:00 - 21:15 | 261   | 270  | 250                              | 10  | 19  |
| 86                          | 21:15 - 21:30 | 256   | 265  | 245                              | 11  | 20  |
| 87                          | 21:30 - 21:45 | 250   | 259  | 240                              | 10  | 19  |
| 88                          | 21:45 - 22:00 | 244   | 252  | 236                              | 8   | 16  |
| 89                          | 22:00 - 22:15 | 238   | 241  | 228                              | 10  | 13  |
| 90                          | 22:15 - 22:30 | 231   | 234  | 232                              | 1   | 3   |
| 91                          | 22:30 - 22:45 | 223   | 227  | 230                              | 6   | 3   |
| 92                          | 22:45 - 23:00 | 217   | 220  | 226                              | 9   | 6   |
| 93                          | 23:00 - 23:15 | 211   | 215  | 224                              | 13  | 10  |
| 94                          | 23:15 - 23:30 | 208   | 211  | 221                              | 13  | 10  |
| 95                          | 23:30 - 23:45 | 204   | 208  | 217                              | 13  | 10  |

|    |               |     |     |     |    |    |
|----|---------------|-----|-----|-----|----|----|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 201 | 204 | 215 | 14 | 11 |
|----|---------------|-----|-----|-----|----|----|